

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ
विज्ञापन संख्या-06-परीक्षा/2023, नेत्र परीक्षण अधिकारी (सामान्य चयन)
मुख्य परीक्षा (प्रा.अ.प.- 2022)/06
उत्तर कुंजी (मास्टर सेट)

QP Code : EO5

परीक्षा तिथि : 19-01-2025

1.	<p>निम्नलिखित में से कौन-सा ऊतक शरीर के अंगों को जोड़ता है और सहारा देता है तथा कुछ पदार्थों का परिवहन या भंडारण करता है ? संयोजी ऊतक</p> <p>Which of the following tissues connect and support parts of the body and transport or store materials ? Connective tissues</p>
2.	<p>शरीर का एक अनुप्रस्थ सेक्शन इसे निम्न में विभाजित करता है ऊपरी और निचला भाग</p> <p>A transverse section of the body divides it into Upper and lower portions</p>
3.	<p>निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रियाएँ चयापचय में शामिल हैं ? बढ़ना, मरम्मत करना, प्रतिक्रिया देना और प्रजनन करना</p> <p>Which of the following processes are included in metabolism ? Growing, repairing, reacting and reproducing</p>
4.	<p>वे बिंदु जहाँ ऊपरी और निचली पलकें मिलती हैं, उन्हें इस प्रकार जाना जाता है मध्य और पार्श्व कैंथी</p> <p>The points where the upper and lower eyelids meet are known as Medial and lateral canthi</p>
5.	<p>पलक (पल्पिब्री) शब्द का अर्थ क्या है ? नेत्रगोलक के ऊपर की त्वचा, माँसपेशियों और उपास्थि की एक गतिशील तह</p> <p>What does the term palpebrae mean ? A movable fold of skin, muscle and cartilage over the eyeball</p>

6.	<p>म्यूकोक्यूटेनीयस जंक्शन अथवा ग्रे लाइन कहाँ स्थित होती है ? आइलैश के ठीक पीछे</p> <p>Where is the mucocutaneous junction or gray line located ? Just posterior to the eyelashes</p>
7.	<p>निम्नलिखित में से कौन-सी कॉर्निया की एक प्रमुख विशेषता है ? यह गैर-संवहनी, पारदर्शी ऊतक है जो प्रकाश को अपवर्तित करता है ।</p> <p>Which of the following is a key characteristic of the cornea ? It is an avascular, transparent tissue that refracts light</p>
8.	<p>कौन-सी कपाल तंत्रिका ऑर्बिक्युलरिस ओकुली माँसपेशी को मोटर इन्नेर्वेशन प्रदान करती है ? सातवीं कपाल तंत्रिका (चेहरे की तंत्रिका)</p> <p>Which cranial nerve provides motor innervation to the orbicularis oculi muscle ? Seventh cranial nerve (Facial nerve)</p>
9.	<p>स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कौन-सा भाग पलकों और ऑर्बिट की स्मूद माँसपेशियों को सक्रिय करता है ? सिम्पेथेटिक डिवीजन</p> <p>Which part of the autonomic nervous system activates the smooth muscles of the eyelids and orbit ? Sympathetic division</p>
10.	<p>ग्लोब (नेत्रगोलक) की उजागर सतह को कैसे नम रखा जाता है ? लैक्रिमल तंत्र से स्रावित आँसू द्वारा</p> <p>How is the exposed surface of the globe (eyeball) kept moist ? By tears secreted from the lacrimal apparatus</p>
11.	<p>लैक्रिमल तंत्र द्वारा आँसू स्राव की अनुमानित सामान्य दैनिक (24 घंटे) दर क्या है ? 0.75 से 1.1 ग्राम</p> <p>What is the estimated normal daily (24 hours) rate of tear secretion by the lacrimal apparatus ? 0.75 to 1.1 grams</p>
12.	<p>ट्रांसपोज़िशन के दौरान अक्ष को कितना बदलना चाहिए ? 90 डिग्री</p> <p>How much should the axis be changed during transposition ? 90 degrees</p>

13.	<p>थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के संदर्भ में एक ब्लैकबॉडी क्या है ? एक आदर्श पिंड जो सभी आपतित विकिरणों को अवशोषित करता है और अपने परिवेश के साथ ऊष्मीय संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुनःउत्सर्जित करता है</p> <p>What is a blackbody in the context of thermal electromagnetic radiation ? An ideal body that absorbs all incident radiation and reemits enough to maintain thermal equilibrium with its surroundings</p>
14.	<p>एक प्रकाशीय प्रणाली के माध्यम से एकवर्णी प्रकाश के प्रसार का विश्लेषण करने की एक सामान्य विधि में कॉम्प्लेक्स मान वाले _____ जोन्स मैट्रिसेस का उपयोग करना शामिल है ।</p> <p>2 × 2</p> <p>A common method of analyzing the propagation of monochromatic light through an optical system involves using the complex valued _____ Jones matrices.</p> <p>2 × 2</p>
15.	<p>इंटरफेरोमीटर के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है ? अल्बर्ट ए. माइकलसन</p> <p>Who is credited with the invention of the interferometer ? Albert A. Michelson</p>
16.	<p>कॉन्टैक्ट लेंस के संदर्भ में “एज क्लीयरेंस” का क्या मतलब है ? कॉर्निया की सामने की सतह और पेरिफेरल कर्व की पिछली सतह के बीच का अंतर</p> <p>What does “edge clearance” refer to in the context of contact lenses ? The gap between the front surface of the cornea and the back surface of the peripheral curves</p>
17.	<p>कॉन्टैक्ट लेंस में प्रिज्म बैलास्ट का उपयोग करने का क्या नुकसान है ? यह निचले किनारे को मोटा बना सकता है, जिससे संभावित रूप से असुविधा हो सकती है</p> <p>What is a disadvantage of using prism ballast in contact lens ? It can make the lower edge thicker, potentially leading to discomfort</p>
18.	<p>_____ रोग में शरीर की संरचना और कार्य में परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन है । पैथोलॉजी</p> <p>_____ is the scientific study of changes in the structure and function of the body in disease. Pathology</p>
19.	<p>रेटिनोस्कोपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ? आँख की अपवर्तक त्रुटि को निष्पक्ष रूप से निर्धारित करना</p> <p>What is the primary purpose of retinoscopy ? To objectively determine the refractive error of an eye</p>

20.	<p>निम्नलिखित में से कौन-से रेटिनोस्कोप के दो मुख्य प्रकार हैं ? स्पॉट और स्ट्रीक</p> <p>Which of the following are the two principal types of retinoscope ? Spot and Streak</p>
21.	<p>आँख में अपवर्तक त्रुटि का क्या अर्थ है ? आँख दूर के स्रोत से प्रकाश को पूरी तरह से रेटिना पर केंद्रित नहीं कर सकती</p> <p>What does refractive error in the eye imply ? The eye cannot focus light from a distant source perfectly on the retina</p>
22.	<p>दृष्टिवैषम्य डायल एक चार्ट है जिसमें होते हैं रेडियल रेखाएँ</p> <p>The astigmatic dial is a chart with Radial lines</p>
23.	<p>एक सिलेंडर पावर से दूसरे में माप या प्रिस्क्रिप्शन को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ? ट्रांसपोज़िशन</p> <p>What is the process of changing a measurement or prescription from one cylinder power to the other called ? Transposition</p>
24.	<p>ट्रांसपोज़िशन के दौरान सिलेंडर के चिह्न का क्या होता है ? यह धन से ऋण या ऋण से धन में बदल जाता है</p> <p>What happens to the cylinder sign during transposition ? It changes from plus to minus or minus to plus</p>
25.	<p>निम्नलिखित में से कौन-सा लेंस प्रिस्क्रिप्शन के ट्रांसपोज़िंग का चरण नहीं है ? अक्ष मान को दो से गुणा करना</p> <p>Which of the following is not a step in transposing a lens prescription ? Multiply the axis value by two</p>
26.	<p>एम्मेट्रोपिया शब्द किससे संबंधित है ? आँख में अपवर्तक त्रुटि की अनुपस्थिति</p> <p>What does the term emmetropia refer to ? Absence of refractive error in the eye</p>
27.	<p>आँख की अपवर्तक त्रुटि को यह भी कहा जाता है एमेट्रोपिया</p> <p>Refractive error of an eye is also called as Ametropia</p>

28.	<p>क्रिप्टोफथाल्मोस क्या है ? पलकों की कुल अनुपस्थिति</p> <p>What is cryptophthalmos ? Total absence of eyelids</p>
29.	<p>सिलिअरी बाँडी के विशिष्ट कोलोबोमा अपरिवर्तित रूप से पाए जाते हैं</p> <p>ट्राइसोमी 13</p> <p>The typical colobomas of the ciliary body are invariably found in trisomy 13</p>
30.	<p>दृष्टिवैषम्य का पता लगाने के लिए कॉर्निया पर संकेंद्रित वलयों में माइक्रोस्कोप प्रकाश को परावर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शंकु के आकार के उपकरण का नाम क्या है ?</p> <p>केराटोमीटर</p> <p>What is the name of the cone-shaped instrument used to reflect microscope light in concentric rings on the cornea to detect astigmatism ? Keratometer</p>
31.	<p>नेत्रविज्ञान में एल.आई.ओ. का पूर्ण रूप क्या है ?</p> <p>लेजर इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी</p> <p>What is the full form of LIO in ophthalmology ? Laser Indirect Ophthalmoscopy</p>
32.	<p>स्लिट लैंप का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रिया की जा सकती है ?</p> <p>उपर्युक्त सभी</p> <p>Which of the following procedures can be performed using a slit lamp ? All of the above</p>
33.	<p>एन.एस.ए.आई.डी. का पूर्ण रूप क्या है ?</p> <p>नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स</p> <p>What is the full form of NSAID ? Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs</p>
34.	<p>निम्नलिखित में से कौन-सा ड्रग ग्लूकोमा के उपचार में उपयोग की जाने वाली प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग है ?</p> <p>लैटानोप्रोस्ट</p> <p>Which of the following drugs is a prostaglandin analog used in glaucoma treatment ? Latanoprost</p>
35.	<p>शुष्क नेत्र रोग के उपचार के लिए आमतौर पर किस इम्यूनोमॉड्युलेटर का उपयोग किया जाता है ?</p>

	<p>साइक्लोस्पोरिन</p> <p>Which immunomodulator is commonly used to treat dry eye disease ?</p> <p>Cyclosporine</p>
36.	<p>निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया में कठोर कोशिका भित्ति नहीं होती है ?</p> <p>माइकोप्लाज्मा</p> <p>Which of the following bacteria lack rigid cell walls ?</p> <p>Mycoplasmas</p>
37.	<p>निम्नलिखित में से कौन कठोर कोशिका भित्ति और एक क्लासिक कोशिका नाभिक वाली गैर-गतिशील यूकैरियोट्स का वर्णन करता है ?</p> <p>कवक</p> <p>Which of the following describes non-motile eukaryotes with rigid cell walls and a classic cell nucleus ?</p> <p>Fungi</p>
38.	<p>रोके जा सकने वाले और इलाज योग्य अंधेपन का योग कहलाता है</p> <p>टाले जा सकने वाला अंधापन</p> <p>The sum of preventable and curable blindness is called as</p> <p>Avoidable blindness</p>
39.	<p>लेंस माउंट में संपर्क तनाव को कम करने के लिए किस प्रकार का इंटरफ़ेस सबसे प्रभावी है ?</p> <p>गोलाकार इंटरफ़ेस</p> <p>Which kind of interface is most effective for reducing contact stress in lens mounts ?</p> <p>Spherical interface</p>
40.	<p>प्लास्टिक ऑप्टिक्स के लाभ में शामिल है</p> <p>उपर्युक्त सभी</p> <p>Advantages of plastic optics includes</p> <p>all of the above</p>
41.	<p>वह आवास जो एक दूसरे के सापेक्ष सही स्थिति में कई लेंस रखता है</p> <p>उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> <p>The housing that holds multiple lenses in the correct position relative to each other is</p> <p>None of the above</p>
42.	<p>जनगणना से सर्वेक्षण किस प्रकार भिन्न है ?</p> <p>उपर्युक्त में से कोई नहीं</p>

	How does a survey differ from a census ? None of the above
43.	जनसंख्या वृद्धि किसका फलन है ? उपर्युक्त सभी Population growth is a function of All of the above
44.	प्रकाश तरंगों के एक दूसरे के साथ चरण में होने का परिणाम क्या है ? सुसंगति What is the result of light waves being in phase with one another ? Coherence
45.	सामुदायिक नेत्र विज्ञान को यह भी कहा जाता है B) और C) दोनों Community ophthalmology is also known as Both B) and C)
46.	नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में एन.पी.सी.बी. का क्या अर्थ है ? नैशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइण्डनेस What does NPCB stand for in the field of ophthalmology ? National Program for Control of Blindness
47.	एशिया में अंधेपन के क्या कारण हैं ? उपर्युक्त सभी What are the causes of blindness in Asia ? All of the above
48.	प्रकाश के तरंग-कण द्वैत का प्रतिपादन किसने किया ? लुईस डिब्रॉग्ली Who postulated the wave-particle duality of light ? Louis deBroglie
49.	निम्नलिखित में से कौन-सी लेज़र प्रकाश की विशेषता नहीं है ? विवर्तन Which of the following is not a property of laser light ? Diffraction
50.	स्नेल के नियम का उपयोग किसके वर्णन के लिए किया जाता है ? प्रकाश का अपवर्तन

	<p>Snell's Law is used to describe Refraction of light</p>
51.	<p>कौन-सी प्रक्रिया मुख्य रूप से लेजर प्रकाश उत्पन्न करती है ? उत्तेजित उत्सर्जन</p> <p>Which process primarily produces laser light ? Stimulated emission</p>
52.	<p>निम्नलिखित में से कौन-सा पहला गैस लेजर था जिसे सफलतापूर्वक संचालित किया गया था ? He – Ne लेजर</p> <p>Which of the following was the first gas laser to be operated successfully ? He – Ne laser</p>
53.	<p>निम्नलिखित में से कौन-सा दृश्य क्षेत्र में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ट्यूनेबल लेजर में से एक है ? ऑर्गेनिक डाये लेजर</p> <p>Which of the following is one of the most widely used tunable lasers in the visible region ? Organic dye laser</p>
54.	<p>सर्जरी से पहले सर्जिकल हाथ की तैयारी के लिए क्या अनिवार्य है ? उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> <p>What is mandatory for surgical hand preparation prior to surgery ? None of the above</p>
55.	<p>निम्नलिखित में से कौन-सी प्रकाश की सही परिभाषा है ? मानव आँख को दिखाई देने वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप</p> <p>Which of the following is a correct definition of light ? A form of electromagnetic radiation visible to the human eye</p>
56.	<p>रोगाणुरोधी एजेंटों के बारे में कौन-सा कथन सही है ? पोविडोन-आयोडीन के प्रयोग के बाद तेजी से पुनर्वृद्धि होती है, लेकिन क्लोरहेक्सिडिन के प्रयोग के बाद नहीं</p> <p>Which statement is correct about antimicrobial agents ? Rapid regrowth occurs after the application of povidone-iodine but not after the use of chlorhexidine</p>
57.	<p>विश्व आरोग्य संगठन के अनुसार, उचित हाथ धोने की तकनीक में कितने चरण शामिल हैं ? 7</p> <p>According to World Health Organisation, how many steps are involved in the proper handwashing technique ? 7</p>

58.	<p>बेसिक लाइफ सपोर्ट में सी.पी.आर. का क्या अर्थ है ? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन</p> <p>What does CPR in Basic Life Support stand for ? Cardio Pulmonary Resuscitation</p>
59.	<p>बेसिक लाइफ सपोर्ट में ए.ई.डी. का क्या अर्थ है ? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर</p> <p>What does AED stand for in Basic Life Support ? Automated External Defibrillator</p>
60.	<p>_____ कार्डियक अरेस्ट का एक सामान्य रोकथाम योग्य कारण है । श्वासावरोध (चोकिंग)</p> <p>_____ is a common preventable cause of cardiac arrest. Choking</p>
61.	<p>लंबे समय तक चश्मा पहनने वाले लोगों के लिए उपयुक्त टेम्पल को क्या कहते हैं ? स्कल टेम्पल</p> <p>The temple that is suitable for people who wear their eyeglasses for long periods is called a Skull temple</p>
62.	<p>किस प्रकार के टेम्पल में घुमावदार इयरपीस होता है जो कान के चारों ओर फिट होता है ? उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> <p>Which temple type has a curved earpiece that fits around the ear ? None of the above</p>
63.	<p>कौन-सा टेम्पल उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें अक्सर अपना चश्मा हटाने की ज़रूरत होती है ? लाइब्रेरी टेम्पल</p> <p>Which type of temple is most suitable for people who need to remove their spectacles often ? Library temple</p>
64.	<p>कम दृष्टि चिकित्सा में दृष्टि वृद्धि के लिए सहायक साधनों और उपकरणों के उपयोग में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए, जैसे कि उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> <p>Low vision therapy should also provide training in the use of aids and appliances for vision enhancement, such as None of the above</p>

65.	<p>बुजुर्गों की कम दृष्टि प्रबंधन को उनकी _____ स्थिति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए । समग्र स्वास्थ्य</p> <p>Low vision management of the elderly has to be seen within the context of their _____ status. Overall health</p>
66.	<p>कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय-आधारित प्रयास क्या था ? आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय</p> <p>What was the first university-based attempt to build a computer ? Iowa State University</p>
67.	<p>किस प्रकार का टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है ? डंब टर्मिनल</p> <p>What type of terminal does not process or store data ? Dumb terminal</p>
68.	<p>फ़ाइल बैकअप क्या है ? डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहीत करने की प्रक्रिया</p> <p>What is file backup ? The process of creating and storing a copy of data</p>

69.

सूची – I को सूची – II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये ।

सूची – I

1. एल्गोरिथम
2. प्रक्रिया
3. अमूर्तन
4. कंप्यूटर विज्ञान

सूची – II

- a. सूचना प्रक्रियाओं का अध्ययन
- b. अनावश्यक विवरणों को हटाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया
- c. एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहाँ प्रत्येक चरण पूर्वानुमानित तरीके से स्थिति को बदलता है
- d. चरणों का एक अनुक्रम जो बताता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया जाए

कूट :

1 2 3 4
d c b a

Match List – I with List – II and select the correct answer by using the code given below the lists.

List – I

1. Algorithm
2. Procedure
3. Abstraction
4. Computer Science

List – II

- a. The study of information processes
- b. A process of simplifying complex concepts by removing unnecessary details
- c. Describes a process where each step changes the state in a predictable manner
- d. A sequence of steps that describes how to achieve a specific goal or process

Code :

1 2 3 4
d c b a

<p>70.</p>	<p>सूची – I को सूची – II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये ।</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">सूची – I</td> <td style="text-align: center;">सूची – II</td> </tr> <tr> <td>1. थ्रूपुट</td> <td>a. एक मेट्रिक जो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कार्यों की संख्या को मापता है</td> </tr> <tr> <td>2. घड़ी की गति</td> <td>b. गणना को गति देने के लिए कार्यों को कई प्रोसेसरों में वितरित करने की प्रक्रिया</td> </tr> <tr> <td>3. समानांतर कंप्यूटिंग</td> <td>c. इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिथम की दक्षता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढाँचा</td> </tr> <tr> <td>4. बिग-ओ नोटेशन</td> <td>d. वह दर जिस पर डेटा को संसाधित या स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे अक्सर प्रति सेकंड बिट्स में मापा जाता है</td> </tr> </table> <p>कूट :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">d</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">c</td> </tr> </table> <p>Match List – I with List – II and select the correct answer by using the code given below the lists.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">List – I</td> <td style="text-align: center;">List – II</td> </tr> <tr> <td>1. Throughput</td> <td>a. A metric that measures the number of operations performed by a computer per unit of time</td> </tr> <tr> <td>2. Clock Speed</td> <td>b. The process of distributing tasks across multiple processors to speed up computation</td> </tr> <tr> <td>3. Parallel Computing</td> <td>c. A framework used to describe the efficiency of an algorithm in terms of input size</td> </tr> <tr> <td>4. Big-O Notation</td> <td>d. The rate at which data can be processed or transferred, often measured in bits per second</td> </tr> </table> <p>Code :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">d</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">c</td> </tr> </table>	सूची – I	सूची – II	1. थ्रूपुट	a. एक मेट्रिक जो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कार्यों की संख्या को मापता है	2. घड़ी की गति	b. गणना को गति देने के लिए कार्यों को कई प्रोसेसरों में वितरित करने की प्रक्रिया	3. समानांतर कंप्यूटिंग	c. इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिथम की दक्षता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढाँचा	4. बिग-ओ नोटेशन	d. वह दर जिस पर डेटा को संसाधित या स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे अक्सर प्रति सेकंड बिट्स में मापा जाता है	1	2	3	4	d	a	b	c	List – I	List – II	1. Throughput	a. A metric that measures the number of operations performed by a computer per unit of time	2. Clock Speed	b. The process of distributing tasks across multiple processors to speed up computation	3. Parallel Computing	c. A framework used to describe the efficiency of an algorithm in terms of input size	4. Big-O Notation	d. The rate at which data can be processed or transferred, often measured in bits per second	1	2	3	4	d	a	b	c
सूची – I	सूची – II																																				
1. थ्रूपुट	a. एक मेट्रिक जो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कार्यों की संख्या को मापता है																																				
2. घड़ी की गति	b. गणना को गति देने के लिए कार्यों को कई प्रोसेसरों में वितरित करने की प्रक्रिया																																				
3. समानांतर कंप्यूटिंग	c. इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिथम की दक्षता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढाँचा																																				
4. बिग-ओ नोटेशन	d. वह दर जिस पर डेटा को संसाधित या स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे अक्सर प्रति सेकंड बिट्स में मापा जाता है																																				
1	2	3	4																																		
d	a	b	c																																		
List – I	List – II																																				
1. Throughput	a. A metric that measures the number of operations performed by a computer per unit of time																																				
2. Clock Speed	b. The process of distributing tasks across multiple processors to speed up computation																																				
3. Parallel Computing	c. A framework used to describe the efficiency of an algorithm in terms of input size																																				
4. Big-O Notation	d. The rate at which data can be processed or transferred, often measured in bits per second																																				
1	2	3	4																																		
d	a	b	c																																		
<p>71.</p>	<p>इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.) के संदर्भ में “आर.एफ.आई.डी.” का अर्थ क्या है ? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन</p> <p>What does the “RFID” stand for, in the context of Internet of Things (IoT) ? Radio Frequency Identification</p>																																				
<p>72.</p>	<p>एस.एम.टी.पी. का पूरा नाम क्या है ? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल</p> <p>What is the full form of SMTP ? Simple Mail Transfer Protocol</p>																																				

73.	<p>डी.पी.आई. का मतलब क्या है ? डॉट्स पर इंच DPI stands for Dots Per Inch</p>																																												
74.	<p>सूची – I को सूची – II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये ।</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">सूची – I</td> <td style="text-align: center;">सूची – II</td> </tr> <tr> <td>1. बिट</td> <td>a. 8 बिट्स से बना, एक अक्षर या डेटा के एक छोटे टुकड़े का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है</td> </tr> <tr> <td>2. बाइट</td> <td>b. 1024 बाइट्स, आमतौर पर टेक्स्ट या इमेज जैसी छोटी फ़ाइलों के लिए उपयोग किया जाता है</td> </tr> <tr> <td>3. किलोबाइट (KB)</td> <td>c. 1024 किलोबाइट्स, आमतौर पर दस्तावेज़, छोटे वीडियो या सॉफ़्टवेयर जैसे डेटा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है</td> </tr> <tr> <td>4. मेगाबाइट (MB)</td> <td>d. 1024 मेगाबाइट्स, आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो या बड़े प्रोग्राम जैसी बड़ी फ़ाइलों के लिए उपयोग किया जाता है</td> </tr> <tr> <td>5. गीगाबाइट (GB)</td> <td>e. सूचना की सबसे छोटी इकाई, जो बाइनरी अवस्था (0 या 1) को दर्शाती है</td> </tr> </table> <p>कूट :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">e</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">c</td> <td style="text-align: center;">d</td> </tr> </table> <p>Match List – I with List – II and select the correct answer by using the code given below the lists.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">List – I</td> <td style="text-align: center;">List – II</td> </tr> <tr> <td>1. Bit</td> <td>a. Composed of 8 bits, used to represent a character or a small piece of data</td> </tr> <tr> <td>2. Byte</td> <td>b. 1024 bytes, commonly used for small files such as text or images</td> </tr> <tr> <td>3. Kilobyte (KB)</td> <td>c. 1024 kilobytes, typically used to measure data like documents, small videos or software</td> </tr> <tr> <td>4. Megabyte (MB)</td> <td>d. 1024 megabytes, commonly used for larger files like high-quality videos or large programs</td> </tr> <tr> <td>5. Gigabyte (GB)</td> <td>e. The smallest unit of information, representing a binary state (0 or 1)</td> </tr> </table> <p>Code :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">e</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">c</td> <td style="text-align: center;">d</td> </tr> </table>	सूची – I	सूची – II	1. बिट	a. 8 बिट्स से बना, एक अक्षर या डेटा के एक छोटे टुकड़े का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है	2. बाइट	b. 1024 बाइट्स, आमतौर पर टेक्स्ट या इमेज जैसी छोटी फ़ाइलों के लिए उपयोग किया जाता है	3. किलोबाइट (KB)	c. 1024 किलोबाइट्स, आमतौर पर दस्तावेज़, छोटे वीडियो या सॉफ़्टवेयर जैसे डेटा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है	4. मेगाबाइट (MB)	d. 1024 मेगाबाइट्स, आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो या बड़े प्रोग्राम जैसी बड़ी फ़ाइलों के लिए उपयोग किया जाता है	5. गीगाबाइट (GB)	e. सूचना की सबसे छोटी इकाई, जो बाइनरी अवस्था (0 या 1) को दर्शाती है	1	2	3	4	5	e	a	b	c	d	List – I	List – II	1. Bit	a. Composed of 8 bits, used to represent a character or a small piece of data	2. Byte	b. 1024 bytes, commonly used for small files such as text or images	3. Kilobyte (KB)	c. 1024 kilobytes, typically used to measure data like documents, small videos or software	4. Megabyte (MB)	d. 1024 megabytes, commonly used for larger files like high-quality videos or large programs	5. Gigabyte (GB)	e. The smallest unit of information, representing a binary state (0 or 1)	1	2	3	4	5	e	a	b	c	d
सूची – I	सूची – II																																												
1. बिट	a. 8 बिट्स से बना, एक अक्षर या डेटा के एक छोटे टुकड़े का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है																																												
2. बाइट	b. 1024 बाइट्स, आमतौर पर टेक्स्ट या इमेज जैसी छोटी फ़ाइलों के लिए उपयोग किया जाता है																																												
3. किलोबाइट (KB)	c. 1024 किलोबाइट्स, आमतौर पर दस्तावेज़, छोटे वीडियो या सॉफ़्टवेयर जैसे डेटा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है																																												
4. मेगाबाइट (MB)	d. 1024 मेगाबाइट्स, आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो या बड़े प्रोग्राम जैसी बड़ी फ़ाइलों के लिए उपयोग किया जाता है																																												
5. गीगाबाइट (GB)	e. सूचना की सबसे छोटी इकाई, जो बाइनरी अवस्था (0 या 1) को दर्शाती है																																												
1	2	3	4	5																																									
e	a	b	c	d																																									
List – I	List – II																																												
1. Bit	a. Composed of 8 bits, used to represent a character or a small piece of data																																												
2. Byte	b. 1024 bytes, commonly used for small files such as text or images																																												
3. Kilobyte (KB)	c. 1024 kilobytes, typically used to measure data like documents, small videos or software																																												
4. Megabyte (MB)	d. 1024 megabytes, commonly used for larger files like high-quality videos or large programs																																												
5. Gigabyte (GB)	e. The smallest unit of information, representing a binary state (0 or 1)																																												
1	2	3	4	5																																									
e	a	b	c	d																																									

75.

सूची - I को सूची - II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये ।

सूची - I

सूची - II

- | | |
|--|--|
| 1. अपोलो गाइडन्स कंप्यूटर (ए.जी.सी.) | a. 64 KB डेटा स्टोर कर सकता है |
| 2. अपोलो गाइडन्स कंप्यूटर (ए.जी.सी.) की भंडारण क्षमता | b. वजन 70 पाउंड और आयतन लगभग 1 घन फुट |
| 3. अपोलो गाइडन्स कंप्यूटर (ए.जी.सी.) की प्रसंस्करण शक्ति | c. माइक्रोप्रोसेसरों, उच्च क्षमता भंडारण का उपयोग करता है और कार्यालय कार्य, गेमिंग, आदि जैसे सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग कार्यों के लिए सक्षम है |
| 4. आधुनिक लैपटॉप | d. आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी जिसे बिट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जाता था |

कूट :

1	2	3	4
b	a	d	c

Match List - I with List - II and select the correct answer by using the code given below the lists.

List - I

List - II

- | | |
|---|--|
| 1. Apollo Guidance Computer (AGC) | a. Can store 64 KB of data |
| 2. Storage Capacity of Apollo Guidance Computer (AGC) | b. Weighed 70 pounds and had a volume of about 1 cubic foot |
| 3. Processing power of Apollo Guidance Computer (AGC) | c. Uses micro-processors, high-capacity storage and is capable of general-purpose computing tasks like office work, gaming, etc. |
| 4. Modern Laptop | d. Had very limited processing power compared to modern standards, measured in terms of bits and clock speed |

Code :

1	2	3	4
b	a	d	c

<p>76.</p>	<p>सूची – I को सूची – II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये ।</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">सूची – I</td> <td style="text-align: center;">सूची – II</td> </tr> <tr> <td>1. प्रिमिटिव</td> <td>a. वे दिशानिर्देश या सिद्धांत जो बताते हैं कि सरल इकाइयों को किस प्रकार संयोजित करके बड़ी संरचनाएँ बनाई जा सकती हैं (जैसे, शब्द, वाक्यांश, वाक्य)</td> </tr> <tr> <td>2. संयोजन के साधन</td> <td>b. अर्थ की सबसे छोटी इकाइयाँ जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता</td> </tr> <tr> <td>3. अनंत भाषाएँ</td> <td>c. किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाइयों का अध्ययन (भाषा विज्ञान में सामान्य)</td> </tr> <tr> <td>4. संयोजन के नियम</td> <td>d. एक प्रक्रिया जो हमें मौजूदा तत्वों को मिलाकर नए शब्द या अर्थ बनाने की अनुमति देती है</td> </tr> <tr> <td>5. रूपिम</td> <td>e. एक भाषा प्रणाली जो नियमों के एक सेट के माध्यम से असीमित संख्या में सतही रूपों और अर्थों की अनुमति देती है</td> </tr> </table> <p>कूट :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">d</td> <td style="text-align: center;">e</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">c</td> </tr> </table> <p>Match List – I with List – II and select the correct answer by using the code given below the lists.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">List – I</td> <td style="text-align: center;">List – II</td> </tr> <tr> <td>1. Primitives</td> <td>a. The guidelines or principles that describe how simpler units can be combined to form larger structures (e.g., words, phrases, sentences)</td> </tr> <tr> <td>2. Means of Combination</td> <td>b. The smallest units of meaning that cannot be broken down further</td> </tr> <tr> <td>3. Infinite languages</td> <td>c. The study of the smallest units of meaning in a language (common in linguistics)</td> </tr> <tr> <td>4. Rules of Combination</td> <td>d. A process that allows us to form new words or meanings by combining existing elements</td> </tr> <tr> <td>5. Morphemes</td> <td>e. A language system that allows for an unbounded number of surface forms and meanings through a set of rules</td> </tr> </table> <p>Code :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">d</td> <td style="text-align: center;">e</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">c</td> </tr> </table>	सूची – I	सूची – II	1. प्रिमिटिव	a. वे दिशानिर्देश या सिद्धांत जो बताते हैं कि सरल इकाइयों को किस प्रकार संयोजित करके बड़ी संरचनाएँ बनाई जा सकती हैं (जैसे, शब्द, वाक्यांश, वाक्य)	2. संयोजन के साधन	b. अर्थ की सबसे छोटी इकाइयाँ जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता	3. अनंत भाषाएँ	c. किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाइयों का अध्ययन (भाषा विज्ञान में सामान्य)	4. संयोजन के नियम	d. एक प्रक्रिया जो हमें मौजूदा तत्वों को मिलाकर नए शब्द या अर्थ बनाने की अनुमति देती है	5. रूपिम	e. एक भाषा प्रणाली जो नियमों के एक सेट के माध्यम से असीमित संख्या में सतही रूपों और अर्थों की अनुमति देती है	1	2	3	4	5	b	d	e	a	c	List – I	List – II	1. Primitives	a. The guidelines or principles that describe how simpler units can be combined to form larger structures (e.g., words, phrases, sentences)	2. Means of Combination	b. The smallest units of meaning that cannot be broken down further	3. Infinite languages	c. The study of the smallest units of meaning in a language (common in linguistics)	4. Rules of Combination	d. A process that allows us to form new words or meanings by combining existing elements	5. Morphemes	e. A language system that allows for an unbounded number of surface forms and meanings through a set of rules	1	2	3	4	5	b	d	e	a	c
सूची – I	सूची – II																																												
1. प्रिमिटिव	a. वे दिशानिर्देश या सिद्धांत जो बताते हैं कि सरल इकाइयों को किस प्रकार संयोजित करके बड़ी संरचनाएँ बनाई जा सकती हैं (जैसे, शब्द, वाक्यांश, वाक्य)																																												
2. संयोजन के साधन	b. अर्थ की सबसे छोटी इकाइयाँ जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता																																												
3. अनंत भाषाएँ	c. किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाइयों का अध्ययन (भाषा विज्ञान में सामान्य)																																												
4. संयोजन के नियम	d. एक प्रक्रिया जो हमें मौजूदा तत्वों को मिलाकर नए शब्द या अर्थ बनाने की अनुमति देती है																																												
5. रूपिम	e. एक भाषा प्रणाली जो नियमों के एक सेट के माध्यम से असीमित संख्या में सतही रूपों और अर्थों की अनुमति देती है																																												
1	2	3	4	5																																									
b	d	e	a	c																																									
List – I	List – II																																												
1. Primitives	a. The guidelines or principles that describe how simpler units can be combined to form larger structures (e.g., words, phrases, sentences)																																												
2. Means of Combination	b. The smallest units of meaning that cannot be broken down further																																												
3. Infinite languages	c. The study of the smallest units of meaning in a language (common in linguistics)																																												
4. Rules of Combination	d. A process that allows us to form new words or meanings by combining existing elements																																												
5. Morphemes	e. A language system that allows for an unbounded number of surface forms and meanings through a set of rules																																												
1	2	3	4	5																																									
b	d	e	a	c																																									
<p>77.</p>	<p>कम्प्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क इकाई (ए.एल.यू.) क्या करती है ? अंकगणित और बूलियन लॉजिकल गणना करती है</p> <p>What does the Arithmetic Logic Unit (ALU) in computer system do ? Performs arithmetic and Boolean logical calculations</p>																																												
<p>78.</p>	<p>संक्षिप्त नाम यू.एस.बी. का क्या अर्थ है ? यूनिवर्सल सीरियल बस</p> <p>What does the acronym USB stand for ? Universal Serial Bus</p>																																												

79.	<p>एम.एस.-एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है ? 1,048,576</p> <p>What is the maximum number of rows in an MS-Excel 2007 worksheet ? 1,048,576</p>
80.	<p>सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट (सी.पी.यू.) की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं ? कोर</p> <p>The basic computation unit of the Central Processing Unit (CPU) is known as Core</p>
81.	<p>सारनाथ के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन-सा पशु नहीं पाया जाता है ? बाघ</p> <p>Which of the following animal is not found in the Ashokan Pillar of Sarnath ? Tiger</p>
82.	<p>उत्तर प्रदेश में जी.आई. टैग उत्पादों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ? आगरा - हस्तनिर्मित कालीन</p> <p>Which of the following pair is not correctly matched about GI tag products in Uttar Pradesh ? Agra - Handmade Carpets</p>
83.	<p>देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है ? ब्राह्मी लिपि</p> <p>Devanagari Script is developed from which Script ? Brahmi Script</p>
84.	<p>'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया' के लेखक कौन हैं ? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन</p> <p>Who is the author of 'Linguistic Survey of India' ? George Abraham Grierson</p>
85.	<p>निम्नलिखित में से कौन-सी हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है ? मधुशाला</p> <p>Which of the following is famous composition of Harivansh Rai Bachchan ? Madhushala</p>
86.	<p>ताजमहल की पुरातात्विक योजना किसने तैयार की थी ? उस्ताद अहमद लाहौरी</p> <p>Who has prepared archaeological plan of Taj Mahal ? Ustad Ahmed Lahori</p>

87.	<p>उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया है ?</p> <p>आगरा</p> <p>Which of the following city of Uttar Pradesh has been declared the third best Smart City of India in 2023 ?</p> <p>Agra</p>
88.	<p>उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यू.पी.एस.टी.डी.सी.) की स्थापना _____ में हुई थी ।</p> <p>1974</p> <p>The Uttar Pradesh State Tourism Development Corporation (UPSTDC) was established in</p> <p>1974</p>
89.	<p>उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी ?</p> <p>28 सितंबर, 2006</p> <p>When was Uttar Pradesh State Biodiversity Board established ?</p> <p>28 September, 2006</p>
90.	<p>उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित चिड़ियाघरों में से किसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है ?</p> <p>गोरखपुर चिड़ियाघर</p> <p>Which of the following Zoo of Uttar Pradesh is named as Shaheed Ashfaq Ullah Khan Zoological Park ?</p> <p>Gorakhpur Zoo</p>
91.	<p>निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिज़र्व है ?</p> <p>तराई हाथी रिज़र्व</p> <p>Which of the following is second Elephant Reserve of Uttar Pradesh ?</p> <p>Terai Elephant Reserve</p>

<p>92.</p>	<p>सूची – I को सूची – II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये ।</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">सूची – I</td> <td style="text-align: center;">सूची – II</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(परियोजनाएँ)</td> <td style="text-align: center;">(नदियाँ)</td> </tr> <tr> <td>1. आगरा बैराज परियोजना</td> <td>a. रामगंगा नदी</td> </tr> <tr> <td>2. राजघाट बाँध परियोजना</td> <td>b. यमुना नदी</td> </tr> <tr> <td>3. बदायूँ सिंचाई परियोजना</td> <td>c. पगन नदी</td> </tr> <tr> <td>4. कन्हार सिंचाई परियोजना</td> <td>d. बेतवा नदी</td> </tr> </table> <p>कूट :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>d</td> <td>a</td> <td>c</td> </tr> </table> <p>Match List – I with List – II and select the correct answer by using the code given below the lists.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">List – I</td> <td style="text-align: center;">List – II</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(Projects)</td> <td style="text-align: center;">(Rivers)</td> </tr> <tr> <td>1. Agra Barrage Project</td> <td>a. Ramganga river</td> </tr> <tr> <td>2. Rajghat Dam Project</td> <td>b. Yamuna river</td> </tr> <tr> <td>3. Budaun Irrigation Project</td> <td>c. Pagan river</td> </tr> <tr> <td>4. Kanhar Irrigation Project</td> <td>d. Betwa river</td> </tr> </table> <p>Code :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>d</td> <td>a</td> <td>c</td> </tr> </table>	सूची – I	सूची – II	(परियोजनाएँ)	(नदियाँ)	1. आगरा बैराज परियोजना	a. रामगंगा नदी	2. राजघाट बाँध परियोजना	b. यमुना नदी	3. बदायूँ सिंचाई परियोजना	c. पगन नदी	4. कन्हार सिंचाई परियोजना	d. बेतवा नदी	1	2	3	4	b	d	a	c	List – I	List – II	(Projects)	(Rivers)	1. Agra Barrage Project	a. Ramganga river	2. Rajghat Dam Project	b. Yamuna river	3. Budaun Irrigation Project	c. Pagan river	4. Kanhar Irrigation Project	d. Betwa river	1	2	3	4	b	d	a	c
सूची – I	सूची – II																																								
(परियोजनाएँ)	(नदियाँ)																																								
1. आगरा बैराज परियोजना	a. रामगंगा नदी																																								
2. राजघाट बाँध परियोजना	b. यमुना नदी																																								
3. बदायूँ सिंचाई परियोजना	c. पगन नदी																																								
4. कन्हार सिंचाई परियोजना	d. बेतवा नदी																																								
1	2	3	4																																						
b	d	a	c																																						
List – I	List – II																																								
(Projects)	(Rivers)																																								
1. Agra Barrage Project	a. Ramganga river																																								
2. Rajghat Dam Project	b. Yamuna river																																								
3. Budaun Irrigation Project	c. Pagan river																																								
4. Kanhar Irrigation Project	d. Betwa river																																								
1	2	3	4																																						
b	d	a	c																																						
<p>93.</p>	<p>कृषि उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा/से रसायन प्रतिबंधित किया गया है ? उपर्युक्त सभी</p> <p>Which of the following chemicals is/are prohibited by Government of India for agricultural usage ?</p> <p>All of the above</p>																																								
<p>94.</p>	<p>फाइनान्शियल टेक्नोलॉजी कम्पनी (Paytm) का मुख्यालय कहाँ है ? नोएडा, उत्तर प्रदेश</p> <p>Paytm (Financial Technology Company) is headquartered in Noida, Uttar Pradesh</p>																																								
<p>95.</p>	<p>उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था ?</p>																																								

	<p>A) और B) दोनों</p> <p>In the later Vedic Age, Uttar Pradesh was recognized by which name ?</p> <p>Both A) and B)</p>																																								
96.	<p>उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं ?</p> <p>सतीश महाना</p> <p>Who is the present Speaker of Uttar Pradesh Legislative Assembly ?</p> <p>Satish Mahana</p>																																								
97.	<p>महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है ?</p> <p>अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश</p> <p>Maharshi Valmiki International Airport is situated at</p> <p>Ayodhya Dham, Uttar Pradesh</p>																																								
98.	<p>सूची – I को सूची – II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये ।</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">सूची – I</td> <td style="text-align: center;">सूची – II</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(संस्थान)</td> <td style="text-align: center;">(स्थान)</td> </tr> <tr> <td>1. केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान</td> <td>a. लखनऊ</td> </tr> <tr> <td>2. केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान</td> <td>b. मथुरा</td> </tr> <tr> <td>3. राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो</td> <td>c. इज्जत नगर (बरेली)</td> </tr> <tr> <td>4. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान</td> <td>d. मेरठ</td> </tr> </table> <p>कूट :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">d</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">c</td> </tr> </table> <p>Match List – I with List – II and select the correct answer by using the code given below the lists.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">List – I</td> <td style="text-align: center;">List – II</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(Institutions)</td> <td style="text-align: center;">(Locations)</td> </tr> <tr> <td>1. Central Institute for Research on Goats</td> <td>a. Lucknow</td> </tr> <tr> <td>2. Central Institute for Research on Cattle</td> <td>b. Mathura</td> </tr> <tr> <td>3. National Bureau of Fish Genetic Resources</td> <td>c. Izzat Nagar (Bareilly)</td> </tr> <tr> <td>4. Indian Veterinary Research Institute</td> <td>d. Meerut</td> </tr> </table> <p>Code :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">d</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">c</td> </tr> </table>	सूची – I	सूची – II	(संस्थान)	(स्थान)	1. केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान	a. लखनऊ	2. केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान	b. मथुरा	3. राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	c. इज्जत नगर (बरेली)	4. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	d. मेरठ	1	2	3	4	b	d	a	c	List – I	List – II	(Institutions)	(Locations)	1. Central Institute for Research on Goats	a. Lucknow	2. Central Institute for Research on Cattle	b. Mathura	3. National Bureau of Fish Genetic Resources	c. Izzat Nagar (Bareilly)	4. Indian Veterinary Research Institute	d. Meerut	1	2	3	4	b	d	a	c
सूची – I	सूची – II																																								
(संस्थान)	(स्थान)																																								
1. केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान	a. लखनऊ																																								
2. केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान	b. मथुरा																																								
3. राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	c. इज्जत नगर (बरेली)																																								
4. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	d. मेरठ																																								
1	2	3	4																																						
b	d	a	c																																						
List – I	List – II																																								
(Institutions)	(Locations)																																								
1. Central Institute for Research on Goats	a. Lucknow																																								
2. Central Institute for Research on Cattle	b. Mathura																																								
3. National Bureau of Fish Genetic Resources	c. Izzat Nagar (Bareilly)																																								
4. Indian Veterinary Research Institute	d. Meerut																																								
1	2	3	4																																						
b	d	a	c																																						
99.	<p>भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है ?</p> <p>लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी</p>																																								

	Which of the following airport in India became the first to make announcements in Sanskrit ? Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi
100.	बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था ? सारनाथ Buddha preached his first sermon at Sarnath